

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी को सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स में ऊर्जा-प्रभावी अपग्रेड्स के लिए कैनेडा सरकार से 15.7 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग मिली है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 जुलाई, 2022) – आज, मिनिस्टर ऑफ इंटरगवर्नमेंटल अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय डोमिनिक लेब्लॉक (Dominic LeBlanc) की तरफ से, ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, सोनिया सिद्धू (Sonia Sidhu) और मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) ने, ब्रैम्पटन में सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स (Susan Fennell Sportsplex) में डीप एनर्जी (Deep Energy) सुधारों के लिए, 15.7 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग की घोषणा की।

यह फंडिंग, ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने और स्पोर्ट्सप्लेक्स की ऊर्जा प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए कुछ अपग्रेड्स में सहायता करेगी। इस काम में शामिल है, फैसिलिटी के रेफ्रिजरेशन प्लांट्स, एच.ए.वी.सी. (HVAC) सिस्टम्स, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम और लाइटिंग को अपग्रेड करना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की लागतों को रोकने के लिए, बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम और हीट ट्रांसफर के साधन के तौर पर, धरती का प्रयोग करते हुए फैसिलिटी को गर्म और ठंडा करने के लिए, जियोथर्मल सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी शामिल है। यह सुधार, कुदरती गैस खपत को कम करेंगे और इस फैसिलिटी को नेट ज़ीरो फैसिलिटी में बदलने के लिए, ग्रीनहाउस गैस निकासियों को काफी हद तक कम करेंगे।

इस समय सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स के एक हिस्से को, पुराने रेक्रिएशन सेंटर का पुनर्निर्माण करने के लिए निर्माण हेतु पब्लिक के लिए बंद किया गया है। सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स में निर्माण का मार्गदर्शन, [पार्क्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान \(पी.आर.एम.पी.\) \(Parks and Recreation Master Plan\) \(PRMP\)](#) के द्वारा किया जा रहा है और यह, कम्युनिटी को बेहतर सेवा देने के लिए और रेक्रिएशन सेंटरों का पुनर्निर्माण करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्लान का हिस्सा है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने ज़ीरो कार्बन सुधार के लिए सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स का चयन इसलिए किया था क्योंकि रेक्रिएशन सेंटर, हर वर्ष लगभग 1,135 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लगभग जो 240 कारों से पैदा होने वाली जी.एच.जी. (GHG) निकासियों के बराबर है।

ब्रैम्पटन के कम्युनिटी सेंटर्स के नवीकरण प्लान के बारे में, [यहां \(here\)](#) अधिक जानकारी प्राप्त करें। कैनेडा सरकार के ग्रीन एंड इन्क्लूसिव कम्युनिटी बिल्डिंग्स (Green and Inclusive Community Buildings) प्रोग्राम के बारे में, [यहां \(here\)](#) अधिक जानकारी प्राप्त करें।

हवाले

“सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स के लिए ऊर्जा-प्रभावी अपग्रेड्स के लिए कैनेडा सरकार में हमारे साझेदारों के निवेश के लिए उनका धन्यवाद। ब्रैम्पटन ग्रीन सिटी है और हम, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और स्थिरता में लीडर बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निवेश, ईंधन खपत को घटाने और ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने तथा हमारे निवासियों को एक आधुनिक और ऊर्जा प्रभावी

फैसिलिटी प्रदान करने में हमारी मदद करेगा, जहां वे हमारे शानदार रेक्रिएशनल प्रोग्रामों का आनंद ले सकें और स्वस्थ तथा सक्रिय जीवनशैली कायम रख सकें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे निवासियों के लिए लचीली, मल्टी-यूज, मल्टी-जेनरेशनल और मल्टी-सीजन फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए, स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके हमारे अधिक पुराने रेक्रिएशन सेंटर्स का पुनर्निर्माण करने के लिए समर्पित है, ताकि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली कायम रख सकें। हम, सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स में कैनेडा सरकार के निवेश के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, जब हम इस फैसिलिटी में ईंधन खपत और ग्रीनहाउस गैस निकालियों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेरर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ग्रीन और स्वस्थ तथा सुरक्षित शहर के तौर पर, हम हमारे निवासियों के लिए आधुनिक रेक्रिएशनल अवसर प्रदान करने और स्थिरता के साथ हमारी फैसिलिटीज के पुनर्निर्माण पर सबसे अधिक ध्यान देने पर केंद्रित हैं। सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स के लिए ऊर्जा-प्रभावी अपग्रेड्स के लिए कैनेडा सरकार के निवेश के लिए उनका धन्यवाद। हम ब्रैम्पटन में निवेश लाने के लिए हमारे साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स में अपग्रेड्स, ब्रैम्पटन के निवासियों को आधुनिक ऊर्जा प्रभावी फैसिलिटी प्रदान करेंगे, जहां वे इकट्ठे हो, प्रोग्रामिंग तक पहुंच सकें और सक्रिय रह पाएं। हमारी सरकार, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करना जारी रखेगी, जो हमारी कम्युनिटीज को मजबूत बनाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि करते हैं।”

- सोनिया सिद्धू (Sonia Sidhu), मिनिस्टर ऑफ इंटरगवर्नमेंटल अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय डोमिनिक लेब्लॉक (Dominic LeBlanc) की तरफ से, ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

